



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, शनिवार अक्टूबर 22, 1977/आश्विन 30, 1899
No. 331] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1977/ASVINA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 1977

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by clause (viii a) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto to be the Local (Health) Authority incharge of the Health administration in the local area respectively specified against him in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

| Serial No | Officer | Local area |
|-----------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Health Officer of a major port appointed under sub-clause (a) of clause (5) of rule 2 of the Indian Port Health Rules, 1955 | The area within the limits of the major port for which he is appointed. |
| 2. | Health Officer referred to in clause (8) of rule 2 of the Indian Aircraft (Public Health) Rules, 1954 | The area within the air-port for which he is appointed |

[No P 15014/12/76-PH(F&N)

N N. VOHRA, Jt Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1977

सांकांमि० 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाययुक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशासन का भागसाधक स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी नियुक्त करती है।

अनुसूची

| क्रम सं० | अधिकारी | स्थानीय क्षेत्र |
|----------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम, 1955 के नियम 2 के खंड (5) के उपखंड (क) के अधीन नियुक्त महा पत्तन का स्वास्थ्य अधिकारी। | महा पत्तन की सीमाओं के भीतर का वह क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। |
| 2. | भारतीय वायुयान (लोक स्वास्थ्य) नियम, 1954 के नियम 2 के खंड (8) में निर्दिष्ट स्वास्थ्य अधिकारी। | विमान-पत्तन के भीतर का वह क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। |

[संपी० 15014/12 76—पी एच (एफ एंड एन)]

एन० एन० बोहरा, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977